

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2015—चैत्र 4, शक 1937

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

फा. क्र. 17 (ई) 261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सीधी, गुना, अलीराजपुर, बालाघाट, दतिया एवं नरसिंहपुर मध्यप्रदेश हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गुना, मध्यप्रदेश  
(स्थानीय निर्वाचन)

गुना, दिनांक 18 फरवरी 2015

क्र. स्था.निर्वा.-पंचा.-2014-760.—त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2015 के अन्तर्गत तृतीय चरण के निर्वाचन हेतु दिनांक 22 फरवरी 2015 को होने वाले मतदान को शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु गुना जिले की जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र बमौरी के लिए 18 व जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र-चांचौड़ा के लिए कुल 24 अधिकारियों को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है. निर्वाचन के दौरान उक्त सेक्टर अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय की जाना प्रस्तावित है.

अतः निवेदन है कि संलग्न सूची अनुसार गुना जिले की जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र-बमौरी व चांचौड़ा के लिए नियुक्त किए सेक्टर अधिकारियों को दिनांक 20 फरवरी 2015 से 22 फरवरी 2015 तक विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय करने का कष्ट करें।  
संलग्न:—दो सूची

श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014—विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय करने हेतु  
अधिकारियों की सूची

सं. क्र.	जनपद पंचायत का नाम जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय की जाना है	सेक्टर मुख्यालय	नियुक्त सेक्टर अधिकारी का नाम/ पद व मो.नं.	क्षेत्र का विवरण (आवंटित मतदान केन्द्र) जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय की जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

द्वितीय चरण-जनपद पंचायत, बमौरी

1	जनपद पंचायत, बमौरी	1. पाड़ोन	श्री विशाल आनन्द श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना, गुना, 9893095804	120-वर्धा, 121-चीतौड़ा, 122-पाड़ोन, 123-कुम्हारी, 124-टीली, 125-सरखेड़ा, 126-नर्वदा, 127-लक्ष्मीपुरा, 128-बरबन, 129-बरबन, 130-बघूरिया, 131-छिकारी, 132-चाकरी, 133-कराखेड़ा, कुल-14.
2	जनपद पंचायत, बमौरी	2. कपासी	श्री अमित सिंह भदौरिया, सहा. संचालक कृषि गुना, 9977819060	42-जौहरी, 43-जैतुपुरा, 44-ढिमरपुरा, 111-गणेशपुरा, 112-चकलौड़ा, 113-चकलौड़ा, 114-कपासी, 115-कपासी, 116-छतरपुरा, 117-सिलवाटी, 118-सिलावटी, 119-धनोरिया, कुल-12.
3	जनपद पंचायत, बमौरी	3. कलोरा	श्री के. सी. पालिया, उप संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, गुना 9425882683.	105-भिड़रा, 106-उमरदा, 107-कलोरा, 108-कलोरा, 109-पन्हैटी (बंजारा), 110-कुड़का, 151-जगेश्री, 152-डोबरा, 154-मामला, 156-डिगडोली (डोबरा), 157-रमपुरिया, कुल-11.
4	जनपद पंचायत, बमौरी	4. हमीरपुर	श्री एम. एल. कोरी, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग गुना 9425758619.	142-कोहन, 143-बनियानी, 144-बनियानी, 145-पाठी, 146-सोड़ा, 147-आनापुरा, 148-हमीरपुर, 149-हमीरपुर, कुल-8.
5	जनपद पंचायत, बमौरी	5. फतेहगढ़	श्री डी. आर. शाक्य, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गुना.	100-निभेरी, 101-फतेहगढ़, 102-फतेहगढ़, 103-फतेहगढ़, 104-फतेहगढ़, 150-बीलखेड़ा, 153-बाबड़ीखेड़ा, 155-झिरी, कुल-8.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	जनपद पंचायत, बमौरी	6. मगरोड़ा	श्री डी. के. शुक्ला, प्रभारी सहायक संचालक, मत्स्य विभाग, गुना.	89-कुशेपुर, 90-कुशेपुर, 91-गुढ़ा, 92-लालोनी, 93-लालोनी, 94-मगरोड़ा, 95-मगरोड़ा, 96-मगरोड़ा, 97-मगरोड़ा, (आनंदपुरा), 98-कांसल, 99-चककांसल, कुल-11.
7	जनपद पंचायत, बमौरी	7. रामनगर	श्री अजय कुमार गुप्ता, सहा. प्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, गुना 9406552235	134-चुरैला, 135-भूराखेड़ी, 136-रामनगर, 137-रामनगर, 138-किशनपुरा, 139-टकोदिया, 140-अजरोड़ा, 141-अजरोड़ा, कुल-8.
8	जनपद पंचायत, बमौरी	8 परवाह	श्री पी. के. शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, गुना 9425361074.	165-परवाह, 166-परवाह, 167-परवाह, 168-पीप्ल्या, 169-ऐंदवाड़ा, 170-बांसखेड़ी, 171-बांसखेड़ी, 180-मूडराहनुमान, 181-मूडराहनुमान, 192-चकविश्वनगर, 193-विश्वनगर, 194-कनारी, 195-रत्नागिर, 196-इमलिया, कुल-14.
9	जनपद पंचायत, बमौरी	9 झागर	श्री एम. ए. अंसारी, उप संचालक कृषि, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, गुना 9826249471.	162-धाननखेड़ी, 163-धाननखेड़ी, 164-मोई, 172-बनेह, 173-बनेह, 178-झागर, 179-झागर, 186-खड़गपुर, 187-खड़गपुर, 188-सामरसींगा, 189-सामरसींगा, 190-सूजाखेड़ी, 191-मोड़का (मजरा) कुल-13.
10	जनपद पंचायत, बमौरी	10 मुहालकालोनी	श्री एस. एस. चौहान, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, गुना, 9425196208.	57-अम्बारामचक, 58-मुहालकालोनी, 59-मुहालकालोनी, 60-मुहालकालोनी, 61-नयाडुमैला, 62-पांचौरा, 63-पांचौरा, 66-सिलावटी (रामपुर), 67-उकावदखुर्द, 87-भौरा, 88-भौरा, 158-सुहाया, 159-सुहाय, 161-पौरुखेड़ी, कुल-14.
11	जनपद पंचायत, बमौरी	11 साबरामोदी	श्री आनन्द मोहन गर्ग, उप महाप्रबंधक, म.प्र. म.क्षे.वि. वि.कं.लि., संभाग, गुना 9406902292.	68-ख्यावदा, 69-आंतरसूना, 70-दूधई, 71-कंचनपुरा, 72-बिसौनियां, 73-बिसौनियां, 85-उकावदकला, 86-डोंगरखेड़ी, 160-साबरामोदी, 174-धनोरिया, 175-श्यामपुर, 176-कोंतर, 177-बींदाखेड़ी, कुल-13.
12	जनपद पंचायत, बमौरी	12 बेरखेड़ी	श्री एम. बी. सरसैया, उपवन मण्डलाधिकारी, गुना 9424794656.	182-मुरादपुर, 183-मुरादपुर, 184-मुरादपुर, 185-बरोदियाकला, 197-गोलाखेड़ी, 198-गोलाखेड़ी, 199-पटना, 200-खैजराबाबा, 201-खैजराबाबा, 202-शेखपुर, 203-बेरखेड़ी, 204-बेरखेड़ी, 205-बोरखेड़ाडांग, कुल-13.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	जनपद पंचायत, बमौरी	13 विशनवाड़ा	श्री उम्मेद सिंह तोमर, उपसंचालक कृषि, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, गुना 8109856607.	1-डोंगरी, 2-भोटूपुरा, 3-गेहूंखेड़ा, 4-विठ्ठलपुर, 5-नागफनीसलैया, 6-सलैयाराय, 7-देहरी बमौरी, 8-देहरी बमौरी, 9-विशनवाड़ा, 10-विशनवाड़ा, 11-विशनवाड़ा, 12-पाटन, 13-पाटन, 14- बांसखेड़ी, कुल-14.
14	जनपद पंचायत, बमौरी	14 परांठ	श्री आर. बी. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, नगरपालिका, गुना, 9752235583.	32-खड़ेला, 33-खड़ेला, 34-नोनपुरा, 35-डेहरा, 36-हिनोतिया, 38-परांठ, 39-परांठ, 40-बरोदिया, 41-खरखेड़ा, 45-डुमावन, 46-डिगडोली, 47-दोहरदा, कुल-12.
15	जनपद पंचायत, बमौरी	15 बमौरी	श्री जे. के. पंथ, सहायक यंत्री, लो.नि.वि. उपसंभाग, राधौगढ़ 9425381035.	22-डोंगपुर, 23-खैरलामूदौल, 24-खैरलामूदौल, 25-अकोदा, 26-बड़नपुर, 27-बमौरी, 28-बमौरी, 29-बमौरी, 30-बमौरी, 31-बमौरी, कुल-10.
16	जनपद पंचायत, बमौरी	16 बागेरी	श्री संकल्प गोलिया, सहा. यंत्री, लो.नि.वि., भवन परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना, 9009852101.	48-ग्वारखेड़ा, 49-मछरया, 50-करमदा, 51-करमदी, 52-लौडेरा, 53-झूमका, 54-बागेरी, 55-खुटियारी, 56-नोनेरा, कुल-9.
17	जनपद पंचायत, बमौरी	17 सोनखरा	श्री योगेन्द्र वर्मा, क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, गुना.	15-काबरबमौरी, 16-डिबियामानपुर, 17-सोनखरा, 18-सोनखरा, 19-कुसुमखोह, 20-गढ़ लाउजारी, 21-गढ़ लाउजारी, 37-आटाखेड़ी, कुल-8
18	जनपद पंचायत, बमौरी	18 अमरोद	श्री सी. एस. राठौर, उप वनमण्डलाधिकारी, गुना 9424794687.	64-रामपुर, 65-धरावला, 74-अमरोद, 75-अमरोद, 76-सिमरोद, 77-सिमरोद, 78-गांकरखेड़ा, 79-भूराखेड़ी, 80-बछावदा, 81-ठेउआ, 82-मोहनपुरखुर्द, 83-नानीपुरा, 84-सनावनी, कुल-13.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला गुना, मध्यप्रदेश  
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014—विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय करने हेतु  
अधिकारियों की सूची

सं. क्र.	जनपद पंचायत का नाम जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय की जाना है	सेक्टर मुख्यालय	नियुक्त सेक्टर अधिकारी का नाम/ पद व मो.नं.	क्षेत्र का विवरण (आवंटित मतदान केन्द्र) जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदाय की जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

द्वितीय चरण-जनपद पंचायत, चांचौड़ा

1	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	1. बांसाहेडाकला	डॉ. बी. के. पटेल, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं गुना, 9691964748.	1-खनपुरा, 2-तरीपटनी, 3-जामोन्याजागीर, 4-बाक खेडा, 5-बांसाहे डकला, 6-बांसाहे डाकला, 7-बांसाहे डाखुर्द, 08-झीकनी, 09-सेवन्या, 10-खेडीकला, 11-खेडीकला, कुल-11.
2	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	2. केकडीवीरान	श्री पी. के. घोष, महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, गुना 9425779602.	12-खजुरिया, 13-भोगीपुरा, 14-कोलूखेडी, 15-घस्याखेडी, 16-केकडीवीरान, 17-कराडया, 18-मोंतीपुराआबाद, 61-झिरी, 62-झिरी, 63-खेरवेह. कुल-10.
3	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	3. तलावडा न. आम्बेह.	श्री बी. एल. उच्चारिया, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, राघौगढ़ 9479335278.	19-मदागनमाफी, 20-मदागनमाफी, 21-मदागनमाफी, 22-तलावडा, नज. आम्बेह, 23-करमोदिया, 24-आम्बेह, 25-आंकखेडी, 26-कै कडयाकलां, 27-बेहडावेह, कुल-9.
4	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	4. लामाखेडा	श्री अजय कटियार, जिला शिक्षा अधिकारी गुना 9425740838.	28-खेजडारामा, 29-खेजडारामा, 44-बहुखडी, 45-लामाखेडा, 46-जोगीराडा, 47-बालगुडा, 48-मानकचौक, 49-हनुमतखेडा, कुल-08.
5	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	5. भमावद	श्री सुनील गोयल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आरोन 9827003684.	30-बडागांव, 31-बडागांव, 32-बडागांव, 33-बिरयाई, 34-बिरयाई, 35-बन्दरूआ, 36-भमावद, 37-भमावद, 38-भमावद, 39-गुलवाड़ा, 40-गुलवाड़ा, 41-टुन्डावेह, 42-देहरी कुंभराज, कुल-13
6	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	6. उपरी	श्री विजयसिंह कोरी, परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना, राघौगढ़, 9981727229.	43-कैं कडायाकला, 76-कैं कडायाखुर्द, 77-सांकाकला, 78-उपरीचक, 79-उपरी, 82-तुलसीखेडी, 84-खेडलीयंका, 120-गोल्याहेड, 115-कानाखेडी, 121-खेजडवेह, 122-खटकिया, 123-खटकिया, कुल-12.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	7. अल्लीखेडी	श्री आर. बी. गोयल, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, गुना 9779773300.	110-रोडाखेडी, 111-बीलाखेडी, 112-कुंदारी, 113-कुदारा, 114-मुहांसाखुर्द, 116-कुरवाई, 117-कुरवाई, 118-अल्लीखेडी, 119-सिहारी, कुल-09.
8	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	8. परवरिया	श्री उदयभान सिंह मर्सकोले, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग राघौगढ़, 9407275151.	80-उमरया, 81-आमल्या, 83-कुंजाखेडा, 85-बरखेडाकला, 86-घोरलाखेडी, 106-परवरिया, 107-परवरिया, 102-रामनगर लोधाकापुरा, 104-मोहम्मदपुर, 105-मोहम्मदपुर, 108-इंटखेडीखुर्द, 109-इंटखेडीखुर्द, कुल-12.
9	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	9. बडौद	श्री चन्द्रशेखर गौर, उप महाप्रबंधक, म.प्र. म.क्षे. वि.वि.कं.लि., संभाग गुना 9406902586.	50-मोहनपुर, 51-मोहनपुर, 52-झारेडा, 54-बडौद, 55-बडौद, 56-बडौद, 72-बडनगर, 73-आमखेडा, 74-टगरयाकला, 75-जस्तखेडी, कुल-10
10	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	10. सानई	श्री दीपक बंसोड, कार्यपालन यंत्री, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, गुना 9827076450.	53-पीपलाखेडीकला, 57-सानई, 58-सानई, 59-भूमलाखेडी, 60-भूमलाखेडी, 68-तलावडा मजरा सानई, 69-तलावडा मजरा सानई, 70-पीपल्या नज. सींगनपुर, 71-गोपालगढ़, कुल-09.
11	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	11. बकान्या	श्री सी. पी. सिंह भदौरिया, उपायुक्त, सहकारिता, गुना 9425031827.	64-सोलई, 65-लीलवेहखुर्द, 66-बकान्या, 67-बकान्या, 96-टटूजखेडी, 97-गुर्जरखेडी, 98-बोरकाखेडा, 99-गोमुख, 100-कडैयाखुर्द, 101-कडैयाखुर्द, कुल-10.
12	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	12. मृगवास	श्री अनुरोध श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इकाई-2, गुना.	87-सींगनपुर, 88-सींगनपुर, 89-मृगवास, 90-मृगवास, 91-मृगवास, 92-मृगवास, 93-मृगवास, 94-मृगवास, 95-मृगवास, 103-बरखुआ, कुल-10.
13	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	13. बटावदा	श्री रंजीत सिंह रघुवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत राघौगढ़, 9893685201.	135-फतेहपुर, 136-फतेहपुर, 149-पीपलहेडाडांग, 150-पीपलखेडीखुर्द, 151-बटावदा, 152-बटावदा, 153-बटावदा, 154-कांकरया, 157-लीलवेहकला, 160-कुसुमपुरा, 203-मांगरोन, कुल-11.
14	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	14. उमरथाना	श्री कमलभान सिंह राजपूत, सहायक यंत्री, जल संसाधन, राघौगढ़, 9424589424.	155-जलालपुरा, 156-जलालपुरा, 158-झूकरा, 159-सागोडिया, 161-पीपल्याखुर्द, 162-पीपल्यामोती, 163-तलावली, 164-उमरथाना, 165-उमरथाना, 201-महेशपुरा, 202-महेशपुरा, कुल-11.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	15. बरखेडीमाफी	श्री ए. के. जैन, संभागीय परियोजना यंत्री, लो.नि.वि. (पी.आई.यू.) गुना 9826253103.	131-बरखेडीमाफी, 132-बरखेडीमाफी, 133-देदला, 134-देदला, 137-जयसिंहपुरा, 138-चारनपुरा, 139-रमडी, 140-रमडी, 204-खानपुरा, कुल-09.
16	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	16. बरखेडाखुर्द	श्री पुनीत खरे, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, लो.नि. वि. संभाग, गुना 9425758572, 9425474412.	124-बरखेडाखुर्द, 125-बरखेडाखुर्द, 126-कांदयाखेडीकला, 127-मुसैरैली, 128-खेजडाकलारानी, 129-खेजडाकलारानी, 130-खेजडाकलारानी, 143-अजगरा, 144-रमडा, कुल 09.
17	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	17. घाटाखेडी	श्री पी. जोशी, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, राघौगढ़ 9926056355.	141-चीतोडा, 142-जामोन्याकला, 145-घाटाखेडी, 146-घाटाखेडी, 147-कोलुआ, 148-बीलखेडाचक, 211-वापचालहरिया, 212-वापचालहरिया, 209-पटोंदी, 210-पटोंदी, 214-नवलपुरा, कुल-11.
18	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	18. खातौली	श्री व्ही. के. जैन, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग उपसंभाग, राघौगढ़ 9425759244.	196-भैसुआ, 197-बडौदिया, 199-बीनागांव, 200-बीनागांव, 205-खातौली, 206-खातौली, 207-बीजनीपुरा, 208-बीजनीपुरा, 213-नलखेडा, 215-टोडी, 216-टोडी, 217-अरन्या, 218-सागर, कुल-13.
19	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	19. लखनवास	श्री ओ. पी. अम्ब, जिला पंजीयक, गुना 9425339725.	227-रूपाहेडी, 226-लखनवास, 231-गेहूंखेडी, 232-किशोरा, 233-रतोधना, 234-ककरूआ, 235-पीपल्याकलां, 236-मालीनी, 244-खेजडाकलाबाबा, 245-चौपनकला, कुल-10.
20	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	20. कीताखेडी	श्री आर. के. एस. भदौरिया, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, आरोन 9753679733.	190-भानुपुराबाबा, 198-लहरचा, 219-कीताखेडी, 220-रामटेरी, 221-रामटेरी, 222-जटेरी, 223-रामसिंहपुराखुर्द, 224-कोन्याकला, 225-कोन्याकलां, कुल-09.
21	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	21. पैंची	श्री संतोष कुमार खटीक, सहायक यंत्री, जल संसाधन विभाग राघौगढ़ 9977330813.	178-मुहांसाकला, 179-झोरा, 180-नेत्याखेडी, 181-नेत्याखेडी, 189-मेरियाखेडीकलां, 191-नारानपुरा, 192-नारानपुरा, 193-पैंची, 194-पैंची, 195-पैंची, कुल-10.
22	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	22. नेशकला	श्री मुकुल भटनागर, अनुविभागीय अधिकारी, लो. स्वा. यां. विभाग, राघौगढ़.	166-मेरियाखुर्द, 167-जूनापनी, 168-कालापीपल, 169-कालापीपल, 170-मुस्ता, 171-कुडलब्रपुरा, 172-बडीमुरैला, 173-मजरासालराखेडी, 174-आमासेर, 175-आमासेर, 176-नेशकलां, 177-नेशकलां, कुल-12.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	23. कोटरा	श्री टी. डी. चौबे, श्रम पदाधिकारी, गुना 9425341973.	182-पाखरियापुरा, 183-पाखरियापुरा, 184-कनकनहेरू, 185-पीपल्याकोटरा, 186-कोटरा, 187-कोटरा, 188-किरवाडा, 246-सोनाहेडा, 247-सीगापुरा, 248-जोगीपुरा, कुल-10.
24	जनपद पंचायत, चांचौड़ा	24. तेलीगांव	श्री आई. बी. पटेल, उपसंचालक, उद्यान गुना 9425406136.	228-डाबरया, 229-कोदयापुरा, 230-बरखुआ, 237-तेलीगांव, 238-तेलीगांव, 239-तेलीगांव, 240-देहरी, 241-बीलाखेडी, 242-हीगोनी, 243-वापचाविक्रम, कुल-10.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन), जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

क्र. 257-स्था.निर्वा.-2014-15

अलीराजपुर, दिनांक 30 जनवरी 2015

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2014-15

झोनल अधिकारी विकासखण्ड अलीराजपुर

क्र.	झोनल अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	शासकीय सेवा/श्रेणी	आवंटित झोन क्र.	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुनील शाह	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	1	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
2	श्री नवीन श्रीवास्तव	खण्ड शिक्षा अधिकारी, अलीराजपुर	शा.सेवा / 2	2	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
3	श्री एम. एस. डामोर	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग अलीराजपुर.	शा.सेवा / 1	3	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
4	श्री लालसिंह चारेल	सहायक संचालक, कृषि विभाग अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	4	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
5	श्री जी. एस. चौहान	विकासखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर	शा.सेवा / 2	5	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
6	श्री जे. एस. डामोर	संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण आदिवासी विकास विभाग अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	6	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
7	श्री यशवंत पंवार	सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	7	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
8	श्री एच. एस. भवेल	सहायक यंत्री, ग्रा.यां. सेवा, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	8	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
9	श्री एच. आर. सुमन	जिला आपूर्ति अधिकारी, अलीराजपुर	शा.सेवा / 2	9	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	श्री के. एस. सौलंकी	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 1	10	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
11	रिजर्व— 1. श्री सी. एस. भाटी	पशु चिकित्सा, सहायक शल्य अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	रिजर्व	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2014-15

झोनल अधिकारी विकासखण्ड कट्टीवाड़ा

क्र.	झोनल अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	शासकीय सेवा / श्रेणी	आवंटित झोन क्र.	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री विनोद कुमार कौरी	खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कट्टीवाड़ा.	शा. सेवा / 2	1	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
2	श्री के. एस. खपेड़िया	उपसंचालक, किसान एवं कृषि कल्याण, जिला अलीराजपुर.	शा. सेवा / 1	2	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
3	श्री उमेश वास्कले	सहायक यंत्री, जल संसाधन, कट्टीवाड़ा.	शा. सेवा / 2	3	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
4	श्री एल. एस. डावर	अनुविभागीय अधिकारी, वन अलीराजपुर.	शा. सेवा / 2	4	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
5	श्री एल. एस. भाबर	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग अलीराजपुर.	शा. सेवा / 2	5	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
6	श्री आर. एस. चौहान	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्री, अलीराजपुर.	शा. सेवा / 1	6	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
7	श्री डा. राजु रावत	उपसंचालक, पशु चिकित्सालय, अलीराजपुर.	शा. सेवा / 1	7	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
8	श्री के. एस. चौहान	परियोजना प्रशासक, आदिम जाति परियोजना, अलीराजपुर.	शा. सेवा / 1	8	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
9	श्री अशोक कुमार पांडे	सहायक यंत्री, जल संसाधन, अलीराजपुर.	शा. सेवा / 2	9	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
10	श्री एस. एस. गौड़	सहायक यंत्री, ग्रा. यां. से. च. शे.आ. नगर.	शा. सेवा / 2	9	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
11	श्री अमरिश वैद्य	उपायुक्त, सहकारिता विभाग, अलीराजपुर.	शा. सेवा / 1	11	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
12	श्री आर. एस. जमरा	प्राचार्य, डाईट, अलीराजपुर	शा. सेवा / 2	रिजर्व	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

## त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2014-15

## झोनल अधिकारी विकासखण्ड सोण्डवा

क्र.	झोनल अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	शासकीय सेवा / श्रेणी	आवंटित झोन क्र.	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री विजयसिंह सोलंकी	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,	शा.सेवा / 2	1	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
2	श्री एच. एल. पाटील	परियोजना अधिकारी, मनरेगा जिला पंचायत, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	2	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
3	श्री सुरेन्द्रसिंह मौर्य	पशुचिकित्सा शल्यज्ञ, जोबट	शा.सेवा / 2	3	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
4	श्री एच. ए. सैयद	प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	4	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
5	श्री बी. के. राणे	सहायक यंत्री, जल संसाधन, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	5	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
6	श्री त्रिलोकचंद्र वास्करे	सहायक संचालक उद्यान, अलीराजपुर	शा.सेवा / 2	6	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
7	श्री डी. एस. मौर्य	उप संचालक कृषि, अलीराजपुर	शा.सेवा / 1	7	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
8	श्री सी. एस. टैगौर	जिला शिक्षा अधिकारी, अलीराजपुर	शा.सेवा / 2	8	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
9	श्री अलसिंह भिड़े	सहायक यंत्री, लोक निर्माण, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	9	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
10	श्री योगेश जैन	परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना, सोण्डवा.	शा.सेवा / 2	10	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
11	श्री संजय गहरवाल	जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी	शा.सेवा / 2	11	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
12	श्री सुरजसिंह	खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड, सोण्डवा.	शा.सेवा / 2	12	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
13	श्री रोशनलाल बैरवा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, नानपुर	शा.सेवा / 2	रिजर्व	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

## त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2014-15

## झोनल अधिकारी विकासखण्ड चन्द्रशेखर आजाद नगर

क्र.	झोनल अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	शासकीय सेवा / श्रेणी	आवंटित झोन क्र.	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सतीश सिंह	खण्ड शिक्षा अधिकारी, च.शे.आ. नगर.	शा.सेवा / 2	1	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	श्री एस. एस. सौलंकी	सहायक यंत्री, ग्रा.रो. ग्या. यो. कट्टीवाड़ा.	शा.सेवा / 2	2	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
3	श्री मुकेश भूरिया	परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास च.शे.आ. नगर.	शा.सेवा / 2	3	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
4	श्री सोहनसिंह झाणीया	सहायक यंत्री, ग्रा.रो. गां.यो. च.शे.आ. नगर	शा.सेवा / 2	4	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
5	श्री मालसिंह खरत	पशु चिकित्सा अधिकारी, च.शे.आ. नगर.	शा.सेवा / 2	5	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
6	श्री रमेशचन्द्र राठौड	अनु.वि.अधि. वन विभाग, च.शे.आ. नगर.	शा.सेवा / 2	6	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
7	श्री महेन्द्रसिंह धार्वे	अनु.वि.अधि., पी.एच.ई., च.शे.आ. नगर.	शा.सेवा / 2	7	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
8	डॉ. उदयवीरसिंह माहोर	पशु चिकित्सक शल्य बरझर, च.शे.आ. नगर.	शा.सेवा / 2	रिजर्व	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2014-15

झोनल अधिकारी विकासखण्ड जोबट

क्र.	झोनल अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	शासकीय सेवा / श्रेणी	आवंटित झोन क्र.	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सी. एस. अलावा	सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जोबट.	शा.सेवा / 2	1	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
2	श्री के. एस. खरे	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जोबट.	शा.सेवा / 2	2	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
3	श्री दीपक त्रिपाठी	सहायक यंत्री, सर्वशिक्षा अभियान, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	3	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
4	श्री कैलाश मकवाना	सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, जोबट	शा.सेवा / 2	4	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
5	श्री एम. एल. परमार	खण्ड शिक्षा अधिकारी, जोबट	शा.सेवा / 2	5	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
6	श्री एस. एल. मगरेया	सहायक प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	6	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
7	श्री महिराम पिपलिया	मुख्य नगपालिका अधिकारी, जोबट	शा.सेवा / 2	7	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	श्री नवलसिंह भूरिया	सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शा.सेवा / 2 जोबट.	शा.सेवा / 2	8	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
9	डॉ. मगनसिंह डुडवे	सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ, खट्टाली.	शा.सेवा / 2	रिजर्व	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2014-15

झोनल अधिकारी विकासखण्ड उदयगढ

क्र.	झोनल अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	शासकीय सेवा / श्रेणी	आवंटित झोन क्र.	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डॉ. अनिल मेड़ा	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, कट्ठीवाड़ा.	शा.सेवा / 2	1	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
2	श्री यसवंत कुमार यादव	सहायक प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	2	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
3	श्री के. एन. रावत	महाप्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 1	3	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
4	श्री गोपाल शर्मा	सहायक उपयंत्री, जनपद पंचायत, उदयगढ.	शा.सेवा / 2	4	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
5	डॉ. शिवप्रसाद चौहान	पशु चिकित्सा सहायक शल्य, बोरी	शा.सेवा / 2	5	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
6	श्री ए. के. कपूर	सहायक उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	6	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
7	श्री चेतन देसाई	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 1	7	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
8	श्री सतीश दुबे	श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर	शा.सेवा / 2	8	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
9	श्री पी. एन. धाकड	खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ	शा.सेवा / 2	9	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
10	श्री लोकेन्द्रसिंह मण्डलोई	सहायक यंत्री जिला पंचायत, अलीराजपुर.	शा.सेवा / 2	10	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
11	श्री आर. एस. बामनिया	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	शा.सेवा / 2	रिजर्व	विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

शेखर वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बालाघाट,  
आदेश

बालाघाट, दिनांक 10 फरवरी 2015

क्र. 1654-स्था.निर्वा.-पंचा.-2015.---मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-42-05-2014-तीन-1707, भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2014 में दिये गये निर्देशानुसार, त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2014-15 के सुचारू रूप से संचालित करने हेतु तृतीय चरण में सम्मिलित जनपद (विकासखण्ड) पंचायतवार निम्न सारणी के कालम नं. 2 में दर्शित अधिकारियों को कालम नं. 4 में दर्शित विकासखण्ड के लिये, जोनल (सेक्टर) ऑफिसर नियुक्त किया जाता है:—

जोन (सेक्टर) क्र.	अधिकारी का नाम/ पदनाम [जिसे जोनल (सेक्टर) आफि. नियुक्त किया गया है]	मोबाईल नम्बर	जनपद (वि.ख.) पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित मतदान केन्द्र क्रमांक	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री जे. एस. गुर्जर, उप संचालक, कृषि बालाघाट	9424544098	बालाघाट	पादरीगंज सोनखार, सकरी, गुडरू	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10
2	श्री डी. टेम्भरे, उपयंत्री, लो.नि. विभाग, वारासिवनी	9425839179	बालाघाट	कुम्हाडा, मोहगांव, बटुआ	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	9
3	श्री दिलीप टेकाम, जी. एम. आर.डी.सी., बालाघाट.	9406578751	बालाघाट	पचपेडी, चांगोटोला, नगरवाडा	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	11
4	श्री पी. के. गरेवाल, संभागीय यंत्री, पी.आई.यू., लो.नि.वि., बालाघाट	9827534074	बालाघाट	अरनामेटा, चमरवाही, घुनाडी, प्रतापपुर	31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	8
5	श्री जे. एल. ठाकेर, अ.वि.अ. सर्वेक्षण, संभाग, बालाघाट	9977324091	बालाघाट	बुढियागांव, टाकाबरी, कोचेवाडा	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	7
6	श्री एस. एल. सोनवे, उपवन म.अधि. द.उ. बालाघाट.	9424796305	बालाघाट	लामता, भोण्डवा	46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53	8
7	श्री विधा भूषन सिंह, सहा. वनसंरक्षक लामता परि. अधि., बालाघाट.	9424795262	बालाघाट	मोतेगांव, अतरी, मौरिया, भालेवाडा	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 73	11
8	श्री के. एम. वर्मा, महा. सड़क प्राधिकरण, बालाघाट.	9424977077	बालाघाट	चरेगांव, नेवरगांव (च), सेरवी	61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69	9
9	श्री एफ. के. भिमटे, का. यंत्री, रा.सा.बांध, बालाघाट.	9752867971	बालाघाट	टीटवा, ओरम्हा मगरदररा	74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	श्री जी. एस. डेहरिया, उपायुक्त सहकारिता, बालाघाट.	9425165717	बालाघाट	समनापुर, रोशना आमगाव, धापेवाडा	82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 92, 93, 94	12
11	श्री एन.एल. उइके, सहा. सचा.कृ. मुरझड फार्म, वारासिवनी.	9926525841	बालाघाट	आमगांव	91	1
12	श्री देवेन्द्र यादव, जिला विपणन अधि. बालाघाट.	9907475685	बालाघाट	जरेरा, जागपुर, टवेझरी	115, 116, 117, 110, 111, 112, 113, 114, 118	9
13	डा. एन. डी. पुरी, खण्ड पशु चि. अधि. वारासिवनी.	9425892392	बालाघाट	मानेगांव, पायली, टेकाडी, धनसुआ, सुरवाही	145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156	12
14	श्री ए. ए. खान, सहा. प्रबंधक, म. प्र. ग्रा. सड़क विभाग, बालाघाट.	9425610115	बालाघाट	रटटा, कुटिया, कटंगी, बगदरा	157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 162, 163, 164, 165	11
15	श्री आर. सी. अमूले, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालाघाट.	9826352523	बालाघाट	कोसमी	173, 174, 175, 16, 177, 178, 179, 180, 181, 182	10
16	श्री डी. के. कोष्टा कार्य. यंत्रि प्र. मशी. ज. सं.वि. बालाघाट.	07632247773	बालाघाट	कुम्हारी, भटेरा	95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102	8
17	श्री बी. पी. धुर्वे अधीक्षक, शा.आई.टी.आई. किरनापुर.	9425166068	बालाघाट	खैरी, पाथरवाडा, बोदा	103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 120	9
18	श्री रोशनलाल राउत, सी. पी. ओ. कृषि विज्ञान केन्द्र बडगांव.	9425896702	बालाघाट	आंवलाझरी, बघोली, अमेडा	119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127	9
19	श्री विकास रघुवंशी, परि. अधि. जिला पंचायत, बालाघाट.	07632240907	बालाघाट	भरवेली	128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137	10
20	श्री व्ही. के. शर्मा, वाणिज्यकर अधि. बालाघाट.	8989980638	बालाघाट	हिरापुर	138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,	7
21	श्री आई.जे. एस. ठाकुर, सहा. परि. प्रबंधक ग्रा. यां. सेवा संभाग, बालाघाट.	9752559666	बालाघाट	लिंगा, नैतरा	168, 169, 170, 171, 172, 185, 186, 187, 188	9
22	श्री आर. एस. नाग, कार्यक्रम अधि. जिला महिला शक्तिकरण बालाघाट.	9425164734	बालाघाट	गोंगलई, भमोडी, चिचगांव, पेण्डरई	189, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	श्री अरूण विश्वकर्मा, सहा. भूमि संरक्षक अधि. कार्या. उप संचा. कृषि बालाघाट.	9301200859	बालाघाट	नवेगांव, खुरसोडी, देवरी, कोहकाडीबर	183, 184, 192, 193, 194, 204, 205, 202, 203	9
24	श्री सी. एस. बीसेन सहा. संचालक उद्यान, बालाघाट.	9893219885	बालाघाट	लोहारा, परसवाडा, हरदोली, खैरगांव	206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214	9
25	श्री के. पी. सैयाम, सहा. संचालक कृषि, कार्या. उप संचालक, बालाघाट.	9424340241	बालाघाट	परासपानी, गडदा, तिवडीकला, केशलेवाडा नाहरवाही.	215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226.	12
26	श्री एस. के. यादव, प्रबंधक कार्या. उत्तर वन मण्डल जिला वनो. समिति बालाघाट.	07632247487	बालाघाट	हट्टा, खोडसिवनी	227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236	10
27	श्री लाल सिंह इनवाती, कार्यपालन यंत्री, ग्रा. यां. सेवा संभाग क्र. 02, बालाघाट.	9630074115	बालाघाट	रिजर्व	-	-
28	श्री यू. बी. एस. परिहार, वरिष्ठ भू-जल विद कार्या. वरिष्ठ भू-जल सर्व ई 07	9425306107	बालाघाट	रिजर्व	-	-
29	श्री नरेन्द्र बोमपुरे, उपयंत्री, जन. शि. केन्द्र वारासिवनी	9406751186	बालाघाट	रिजर्व	-	-
1	श्री डी.आर. पटले, उपयंत्री, सिंचाई विभाग, बालाघाट.	9165829561	लालबर्गा	भांडामुरी, टेंगनीखुर्द, साल्हेभरी, बांदरी, बोट्टा, कंजई, सिंहोरा, मौसमी, पोण्डी, नेवरगांव ला.	1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 44, 45	15
2	श्री नेतलाल कुरूम, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग, लालबर्गा.	9993273982	लालबर्गा	बगदेही, सेलवा, खैरगांव, जाम, बहेगांव, रमपुरी, घटोलगांव, मोहगांव जा., खुरपुडी.	5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 42, 43	17
3	श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर, सहा. यंत्री ज.प. लालबर्गा.	7697617971	लालबर्गा	धारावासी, रानीकुठार, पण्ढरापानी, देवगांव, नगपुरा, पाथरसाही, औल्याकन्हार, बिठली, बघोली.	23, 24, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69	15
4	श्री एम. एन. बावनकर, उपयंत्री लो. सेवा यां. विभाग लालबर्गा.	9424968823	लालबर्गा	पांढरवानी, टेकाडी, ला., नवेगांव, चीचगांव, साल्हेला, पनबिहरी.	59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	श्री हेमेन्द्र बिसेन, उपयंत्री ज. प. लालबर्वा	9406708949	लालबर्वा	छिन्दलई, बबरिया, कटंगा, पिपरिया छि., घोटी, अतरी, टेंगनीकला, बम्हनी, डोरली.	7, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 54, 55, 56, 57, 58	16
6	श्री ए. आर. गजभिये, उपयंत्री, लो.स्वा.यां. विभाग, लालबर्वा.	9425707450	लालबर्वा	अमोली, ददिया, खामघाट, मुरझड, कौडिया, मोहगांव, (ध) धपेरा	82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 124, 125	16
7	श्री श्यामसिंह ठाकुर, परि. अधि. म. एवं बा.वि.वि. लालबर्वा.	9407316152	लालबर्वा	देवरी, बेलगांव, खारी, खिरी, साल्हे, मोहगांव (ध), छतेरा, बुट्टा.	88, 90, 91, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 122, 126, 127, 128, 129.	16
8	श्री शिवेन्द्र राहंगडाले, उपयंत्री, सर्व शिक्षा अभियान लालबर्वा.	9424663755	लालबर्वा	कनकी, मांझापुर, गर्गा, डोंगरिया.	158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174	15
9	श्री के. जी. बिसेन प्र. विकासखण्ड शि. अधि. ज.शि.के. लालबर्वा.	9425892799	लालबर्वा	मिरेगांव, बिरसोला, डोकरबदी, गोंडेगांव, चन्दपुरी, लवादा, बेहरई.	106, 107, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 152, 153, 154, 155, 156, 157	14
10	श्री राजेन्द्र मुंडिया, उपयंत्री, ज.पं. लालबर्वा.	9424008927	लालबर्वा	बकोडा, गणेशपुर, पलाकामथी, निलजी, धरपीवा, डा. कामथी, खमरिया, रटेगांव.	92, 93, 104, 105, 106, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151.	17
11	श्री घनश्याम भालेकर, उपयंत्री, ज.प. लालबर्वा.	8223972132	लालबर्वा	मानपुर, मोहगांव, बो., बरघाट, बहियाटिकुर, मरेरा, बोरी, बल्हापुर, गारापुरी, खुरसोडी.	79, 80, 81, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 142, 143	15
12	श्री एस. एल. बिसाने, कृषि विस्तार अधि. वृ. कृ.वि.अ. कार्या. लालबर्वा.	9329998018	लालबर्वा	नैतरा, बडगांव, नयाटोला, पिपरिया, कटंगझरी, टेकाडी लो. लोहारा.	144, 145, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194	15
13	श्री ब्रजेश आझा, पशु चिकित्सा विस्तार अधि. पशु चि. लालबर्वा.	8989189687	लालबर्वा	लेण्डेझरी, बरबसपुर, चिल्लौद, पाथरी, नेवरगांव वां. कोपे	172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201.	16
14	श्री पी. आर. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधि. ज.पं. लालबर्वा.	7879745789	लालबर्वा	रिजर्व	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	श्रीमती रूखसाना शेख, उपयंत्री, ज.पं. लालबर्गा.	9424999742	लालबर्गा	रिजर्व	-	-
16	श्री ए. के. मेश्राम, उपयंत्री, अधर न.अ.वि. वारासिवनी.	9425898732	लालबर्गा	रिजर्व	-	-
1	श्री एस. आर. मेश्राम, उपयंत्री, ज.पं. परसवाड़ा.	9424968552	परसवाड़ा	नाटा, खलोण्डी, सुकडी, घोडादेही, उडदना, चंदना, कनई, भीकेवाडा.	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21.	15
2	श्री बी. एल. मरकाम, उपयंत्री, ज.प. परसवाड़ा.	9406748164	परसवाड़ा	भीकेवाडा, मोहगांव, डोंगरिया, अरंडिया, परसवाड़ा.	19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.	14
3	श्री अनिल बागडे, उपयंत्री ज.प., परसवाड़ा.	9977718522	परसवाड़ा	खलोण्डी, सिलगी, खरपडिया, झिरिया, बघोली, पोण्डी, लिंगा.	3, 4, 17, 18, 34, 35, 39, 40, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82	15
4	श्री प्रमोद डेकाटे, बी.आर.सी. ज.प. शिक्षा केन्द्र, परसवाड़ा.	9407086429	परसवाड़ा	पोंगारझोडी, ठेमा, कोरजा, मजगांव, खैरलांजी.	36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.	14
5	श्री रामनरेश लोहार, वन परिक्षेत्र अधि. दक्षिण सामान्य उकवा.	9424790107	परसवाड़ा	सरेखा, धनवार(ठे.) परसाटोला, कुमादेही, कलेगांव-1 शैला हराभाट.	52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.	15
6	श्री जुलियस पिपलाद, वन परिक्षेत्र अधि. उत्तर सामान्य उकवा.	9424790106	परसवाड़ा	डुडगांव, झांगुल, बोदा, सीताडोंगरी, टिकरिया, खुरमुण्डी, सहेजना.	67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 93, 94, 95, 96, 97, 98.	15
7	श्री शैलेन्द्र तिवारी, वन परिक्षेत्र अधि., उत्तर उत्पादन उकवा.	9424796397	परसवाड़ा	कुरेण्डा, बडगांव, चीनी, भीडी, फत्तेपुर, अमवाही, सिंघई.	83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 107.	15
8	डा. एम. एम. खान, प्रबंधक, पशु प्रजनन केन्द्र गढी.	9425865786	परसवाड़ा	मोहगांव (मा.) सिंघई, खुरसुड, लीलामेटा, लगमा, गुदमा, उमरिया.	103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 126, 127, 128, 132.	15
9	श्री सी. एस. धुर्वे, अनु. वि. अधि. वन सामान. बैहर.	9424340354	परसवाड़ा	समनापुर, उकवा, रूपझर, जगनटोला.	115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 135, 136	15
10	श्री रितेश पटले, परियोजना अधिकारी, एकीकृत महिला एवं बाल विकास बैहर.	7898338244	परसवाड़ा	उमरिया, छपरवाही, मोहनपुर, कावेली, चालीबोडी.	131, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	श्री एस. आर. धुर्वे, व.कृ.वि.अधि. परसवाड़ा.	9425844821	परसवाड़ा	रिजर्व	-	-
12	श्री अमित पाण्डे, अनु. वि. अधि. कृ. बैहर.	7566630113	परसवाड़ा	रिजर्व	-	-
13	श्री डी. एस. टेकाम, सहा. परि. अधि. एकी. आदि. वि. बैहर.	9993810962	परसवाड़ा	रिजर्व	-	-

उपरोक्तानुसार नियुक्त, सेक्टर (जोनल) आफिसरों का प्रशिक्षण दिनांक 16-2-2015 समय दोप. 12.00 बजे से स्थान---कलेक्ट्रेट सभागृह (प्रथम तल) बालाघाट में आयोजित किया गया है. जिसमें सेक्टर (जोनल) आफिसरों की उपस्थिति अनिवार्य है.

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला दतिया, मध्यप्रदेश

दतिया, दिनांक 13 फरवरी 2015

संशोधन आदेश

क्र. क्यू-स्था.नि.-सेक्टर आफी. 2014-15.—कार्यालयीन आदेश दिनांक 10 फरवरी 2015 के द्वारा श्री वाई.एस. गौर अनुविभागीय अधिकारी, क्वालिटी कन्ट्रोल डिवी. दतिया की ड्यूटी सेक्टर आफिसर जनपद दतिया में लगाई गई, किन्तु इनको जिला शिवपुरी में सेक्टर आफिसर नियुक्त किये जाने के कारण इन्हें मुक्त करते हुए, इनके स्थान पर नीचे कालम नं. 2 में अंकित अधिकारियों को विकासखण्ड जनपद दतिया, हेतु जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिये उनके नाम सामने आवंटित वार्ड एवं मतदान केन्द्रों हेतु जोनल (सेक्टर) ऑफीसर नियुक्त किया जाता है:—

सेक्टर क्र.	सेक्टर आफिसर का नाम एवं पद मोबाईल नं. सहित	सेक्टर अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत का नाम	सेक्टर का वार्ड क्रमांक व नाम	सेक्टर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मतदान के क्रमांक व नाम	कुल मतदान केन्द्र	संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र का नाम	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्री बी. के. सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी, लहार शाखा नहर उपसंभाग क्र. 1 इन्दरगढ़ मो. 9826689839	बसवाहा, दिसवार, सुजेड, गुढा, नदाई, चरबरा	25-बसवाहा	95 प्रा. पाठशाला, गुढा 96 प्रा. पाठशाला, कल्याणपुरा वुजुर्ग 97 प्रा. पाठशाला, कुम्हरा 98 प्रा. पाठशाला, नदाई 99 प्रा. पाठशाला, नदाई अतिरिक्त कक्ष 103 प्रा. पाठशाला, सुजेड 104 प्रा. पाठशाला, खिरिया खोदस 105 प्रा. विद्यालय दिसवार	16	दुरसडा	विभागीय वाहन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				106 प्रा. विद्यालय, मलखानपुर			
				110 प्रा. शाला, चरबरा			
				111 प्रा. शाला, बदनपुर			
				112 प्रा. पाठशाला, डांडा			
				113 प्रा. पाठशाला, पालीनूर			
				136 शा. हाईस्कूल बसवाहा पूर्वी भाग			
				137 शा. हाईस्कूल बसवाहा पश्चिमी भाग			
				138 शा. प्रा. पाठशाला, बसवाहा			

सेक्टर ऑफिसर संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से समन्वय स्थापित कर अपने प्रभार के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग म. प्र. भोपाल से जारी संलग्न चैकलिस्ट अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जिन अधिकारियों के पास विभागीय वाहन उपलब्ध हैं वे अपने वाहन का उपयोग करेंगे। निर्वाचन कार्य अवधि के दौरान आवंटित सेक्टर के लिए सेक्टर आफिसरों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त रहेगी।

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी.

### कार्यालय, कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन), नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 16 फरवरी 2015

क्र. 355-स्था.निर्वा.-2015.—त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2015 के अन्तर्गत जिले की 06 जनपद पंचायतों में 96 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन हेतु निम्नानुसार सेक्टर अधिकारियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अधिकार प्रत्यायोजित करने का कष्ट करें:—

#### सेक्टर आफिसर के नामों की सूची

क्रमांक (1)	सेक्टर अधिकारी का नाम व पद (2)
1	श्री मुरलीधर सिंह राजपूत, उप वन मण्डलाधिकारी, नरसिंहपुर
2	श्री ए. के. श्रीवास्तव, सहायक संचालक, कृषि, नरसिंहपुर
3	श्री मनोज मेश्राम, सहायक संचालक, उद्यान विभाग, नरसिंहपुर
4	श्री पी. के. अग्रवाल, सहायक संचालक, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नरसिंहपुर
5	श्री डी. एस. मीणा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी, नरसिंहपुर
6	डॉ. एम. पी. तिवारी, सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा, नरसिंहपुर
7	श्री के. के. तिवारी, उपसंचालक, कृषि, नरसिंहपुर
8	श्री पी. के. विनोदे, जिला समन्वयक आदिम जाति कल्याण, नरसिंहपुर
9	श्री आर. एन. पटैल, सहायक संचालक, मिट्टी परीक्षण, नरसिंहपुर
10	श्री प्रभात कुमार शर्मा, प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नरसिंहपुर

(1)	(2)
11	श्री एम. आर. धुर्वे, जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर
12	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, उपायुक्त सहकारिता, नरसिंहपुर
13	श्री यू. एस. पटेल, महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित, नरसिंहपुर
14	श्री यू. एस. चतुर्वेदी, जिला अन्त्यावसायी अधिकारी, नरसिंहपुर
15	डॉ. एन. के. मिश्रा, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, नरसिंहपुर
16	श्री आर. एन. डोगरे, सहा. यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नरसिंहपुर
17	श्री डी. के. मिश्रा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, नरसिंहपुर
18	श्री राजेन्द्र कुमार झारिया, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग प्रकोष्ठ, नरसिंहपुर
19	श्री एस. के. निगम, परियोजना संचालक, आत्मा कृषि, नरसिंहपुर
20	श्री आर. एस. ठाकुर, सहायक संचालक, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नरसिंहपुर
21	श्री एस. के. मिश्रा, वनपाल गोरखपुर, जिला नरसिंहपुर
22	श्री एस. के. अमूले, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, करेली, जिला नरसिंहपुर
23	डॉ. भूपेन्द्र मुड़िया, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, बोहानी, जिला नरसिंहपुर
24	श्री आर. पी. अटारे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, करेली, जिला नरसिंहपुर
25	श्री कैलाश चंद्र कुरील, उपयंत्री, रानी अवंती बाई, नहर परियोजना, करेली, जिला नरसिंहपुर
26	श्री विशाल धुर्वे, उपयंत्री जनपद पंचायत करेली, जिला नरसिंहपुर
27	श्री एन. के. सौंधिया, सहायक यंत्री, रानी अवंती बाई, सागर नहर करेली, जिला नरसिंहपुर
28	श्री अनिल तिवारी, सहायक यंत्री, रानी अवंती बाई सागर, डिस्टनेट, जिला नरसिंहपुर
29	श्री आर. एन. शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, करेली, जिला नरसिंहपुर
30	श्री एल. आर. मेहरा, उपयंत्री, रानी अवंती बाई परियोजना, बरगी, करेली, जिला नरसिंहपुर
31	श्री श्रीधर लाल जाटव, उपयंत्री, रानी अवंती बाई नहर परियोजना, बरगी, करेली, जिला नरसिंहपुर
32	श्री एस. एस. राजपूत, उपयंत्री, जल संसाधन करेली, जिला नरसिंहपुर
33	श्री डी. के. श्रीवास्तव, वनपरिक्षेत्राधिकारी, जिला नरसिंहपुर
34	श्री राजन धुर्वे, उपयंत्री, जनपद पंचायत करेली, जिला नरसिंहपुर
35	श्री बृजमोहन ऋषिशेखर, सहायक यंत्री, रानी अवंती बाई सागर परियोजना, जिला नरसिंहपुर
36	श्री एस. डी. चौधरी, जिला एम. एंड ई. समन्वयक, गरीबी उन्मूलन परियोजना 2, जिला नरसिंहपुर
37	श्री अनिल पटेल, परियोजना अधिकारी, वाटरशेड, जिला पंचायत, नरसिंहपुर
38	डॉ. नितिन कुमार सीजर, सहा. शल्यज्ञ, पशुचिकित्सा, नरसिंहपुर

(1)	(2)
39	श्री हनुक संजीव कुमार, सहायक यंत्री, रानी अवंती बाई बरगी परियोजना, नरसिंहपुर
40	श्री राजकिशोर चौबे, उपयंत्री, जनपद पंचायत, नरसिंहपुर
41	श्री वैभव वंशोर, सहायक यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, नरसिंहपुर
42	श्री बी. पी. श्रीवास्तव, सहायक प्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, नरसिंहपुर
43	श्री डी. के. पहलवान, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नरसिंहपुर
44	श्री उपेन्द्र धुर्वे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुष विंग, नरसिंहपुर
45	श्री आशुतोष दुबे, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, नरसिंहपुर
46	श्री घनश्याम धारने, प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नरसिंहपुर
47	श्री एस. पी. बेले, जिला योजना अधिकारी, नरसिंहपुर
48	श्री बी. एम. साहू, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नरसिंहपुर
49	श्री यशवंत राजपूत, उपयंत्री रानी अवंती बाई सागर परियोजना, नरसिंहपुर
50	श्री विनोद कुमार तिवारी, सहायक यंत्री, मनरेगा, चीचली, जिला नरसिंहपुर
51	श्री अच्युत दीक्षित, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, साईंखेड़ा, जिला नरसिंहपुर
52	श्री एन. के. आरसे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नरसिंहपुर
53	श्री प्रशांत श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक विज्ञान केन्द्र, नरसिंहपुर
54	श्री राजेन्द्रसिंह रघुवंशी, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, नरसिंहपुर
55	श्री महेश कुमार शुक्ला, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
56	श्री मिट्टूसिंह बैनल, अनुविभागीय अधिकारी रानी अवंती बाई सागर, उप संभाग बगासपुर गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
57	श्री आनंद मंगल तिवारी, सहायक यंत्री, मनरेगा, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
58	श्री तुलसीराम मेहरा, प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला नरसिंहपुर
59	डॉ. राजीव कुमार जैन, सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा, नरसिंहपुर
60	श्री दीपक सोनी, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
61	श्री सी. बी. तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
62	श्री गणेश कुमार खरे, सहायक यंत्री, रानी अवंती बाई, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
63	श्री अरूण प्रताप सिंह, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, जिला नरसिंहपुर
64	श्री संजय मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी, मनरेगा, करेली, जिला नरसिंहपुर
65	श्री भूपेन्द्र ठाकुर, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, मुंगवानी, जिला नरसिंहपुर
66	श्री आर. के. झारिया, उपयंत्री, रानी अवंती बाई नहर परियोजना, बरगी, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर

(1)	(2)
67	श्री अमित पटौदी, वन परिक्षेत्राधिकारी गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
68	श्री आर. के. क्षेत्रपाल, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
69	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, समन्वयक, जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, नरसिंहपुर
70	श्री जे. व्ही. खुशाल, उपयंत्री, जल संसाधन, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
71	श्री के. सी. तोमर, उपयंत्री, जल संसाधन, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
72	श्री एस. एस. भाटी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जिला नरसिंहपुर
73	श्री आर. के. मेहरा, कृषि विकास अधिकारी साईंखेड़ा, जिला नरसिंहपुर
74	श्री के. के. भार्गव, उपयंत्री, पी.एच.ई. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
75	श्री मोहम्मद असगर खान, पशु चिकित्सा अधिकारी, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
76	श्री राजेश दशोरे, सहा. परि. अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर
77	श्री विमल किशोर स्वामी, सहायक यंत्री, रानी अवंती बाई सागर नहर, करेली, जिला नरसिंहपुर
78	श्री डॉ. ए. के. शर्मा, सिविल सर्जन, पशु चिकित्सा सेवाएं, नरसिंहपुर
79	श्री एस. के. खजरे, अनुविभागीय अधिकारी, बरगी परियोजना, जिला नरसिंहपुर
80	श्री पी. एस. मार्को, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
81	श्री लक्ष्मणसिंह ठाकुर, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, नरसिंहपुर
82	श्री प्रवीण सिंह पटेल, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, नरसिंहपुर
83	श्री हेमंत कुमार यादव, सहायक यंत्री, रानी अवंती बाई सागर नहर परियोजना, डिस्नेट नरसिंहपुर
84	श्री पी. के. जैन, उपयंत्री, नलकूप विभाग, उप संभाग 2, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
85	श्री पी. एन. शर्मा, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर
86	श्री व्ही. के. तारव, सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण लिमिटेड-01, नरसिंहपुर
87	श्री विमल कुमार जैन, सहायक यंत्री, रानी अवंती बाई सागर नहर संभाग, डिस्नेट नरसिंहपुर
88	श्री एस. के. नायक, उप परियोजना संचालक आत्मा, नरसिंहपुर
89	श्री के. एस. वर्मा, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
90	श्री आर. पी. गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
91	श्री उमेश सिंघल, अनुविभागीय अधिकारी, नलकूप उपसंभाग क्र.-02, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
92	श्री शशिमोहन गंगराडे, फॉर्म मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नरसिंहपुर
93	डॉ. नीतिश जैन, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, चीचली, जिला नरसिंहपुर
94	श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

(1)	(2)
95	श्री डी. के. पंचभाई, अनुविभागीय अधिकारी, वन, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
96	श्री आजाद कुमार नागौरिया, वन परिक्षेत्राधिकारी, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
97	श्री संतोष राजपूत, जिला खेल अधिकारी, नरसिंहपुर
98	श्री बालमुकुन्द बघेल, प्राचार्य, पॉलीटेक्निक कालेज, नरसिंहपुर
99	श्री सुनील कुमार ब्रजपुरिया, सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा, नरसिंहपुर
100	श्री सुरेश चंद्र जादम, रेंजर वनपाल, वन विभाग बरमान, जिला नरसिंहपुर
101	श्री आर. पी. शुक्ला, उपयंत्री, न.प.पा. गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्र. 514-स्था.निर्वा.-2014-15.—त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के दौरान तृतीय चरण का मतदान दिनांक 22 फरवरी 2015 को सम्पन्न होगा. मतदान केन्द्रों में मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु सीधी जिले में कुल 25 सेक्टर मजिस्ट्रेटों का निर्धारण किया गया है. जिले के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राजस्व अधिकारियों की उपलब्धता न होने के कारण निम्नानुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है:—

1. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 01, सीधी.
2. कार्यपालन यंत्री, बाणसागर सिहावल नहर संभाग, चुरहट.
3. जिला आबकारी अधिकारी, जिला सीधी.
4. महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण इकाई 01, सीधी.
5. जिला परियोजना प्रबंधक, डी.पी.आई.पी., सीधी.
6. अधीक्षण यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमि., सीधी.
7. उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, सीधी.
8. उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, सीधी.
9. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी.
10. सहायक संचालक, उद्यान, सीधी.

अतः तृतीय चरण के मतदान हेतु उक्त अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने का कष्ट करें.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.).